



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]
No. 182]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 278(अ).—यतः, मै. डीएलएफ लि., जो उड़ीसा राज्य में एक पूर्णतः निजी संगठन है, ने उड़ीसा राज्य में ग्राम पाटिया, थाना चंद्रशेखर पुर, तहसील भुवनेश्वर, जिला खुर्दा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है ;

और, यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त ग्राम पाटिया, थाना चंद्रशेखर पुर, तहसील भुवनेश्वर, जिला खुर्दा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 23 मई, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, उड़ीसा राज्य में ग्राम पाटिया, थाना चंद्रशेखर पुर, तहसील भुवनेश्वर, जिला खुर्दा में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

तालिका

| क्रम सं. | ग्राम का नाम | खाता सं. | प्लॉट सं. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------------------------|
| 1. | पटिया | 474/1607 | 01 (पी) | 06.457 |
| 2. | | 474/1607 | 06 (पी) | 01.353 |
| 3. | | 474/1607 | 20 (पी) | 02.429 |
| कुल | | | | 10.239 |

[फा. सं. एफ. 2/715/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2008

S.O. 278(E).—Whereas, M/s. DLF Limited, a fully Private Organization in the State of Orissa, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Village Patia, PS: Chandrasekharpur, Tehsil: Bhubaneswar, District Khurda, in the State of Orissa;

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at the said Patia Village, PS: Chandrasekharpur, Tehsil: Bhubaneswar, District Khurda, in the State of Orissa, on 23rd May, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Village Patia, PS: Chandrasekharpur, Tehsil: Bhubaneswar, District Khurda, in the State of Orissa, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, as a Special Economic Zone, namely:—

TABLE

| S. No. | Name of the Village | Khata No. | Plot No. | Area (In Hectares) |
|--------|---------------------|-----------|----------|-----------------------|
| 1. | Patia | 474/1607 | 01 (P) | 06.457 |
| 2. | | 474/1607 | 06 (P) | 01.353 |
| 3. | | 474/1607 | 20 (P) | 02.429 |
| TOTAL | | | | 10.239 |

[F. No. F. 2/715/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.